

1	2	3
2721	संश्लिष्ट मानव-निर्मित तन्तु धागे से पूर्णतः निर्मित बुने हुए कपड़े तथा अन्य तैयार वस्तुएं (जिनमें मछली पकड़ने के जाल शामिल नहीं हैं) अथवा बुने हुए कपड़े तथा अन्य तैयार वस्तुएं जबकि इस प्रकार के तन्तु धाग केवल ताने अथवा बाने अथवा दोनों, में या अलंकरण अथवा सजावट के प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किये जाते हों।	उप-क्रम सं० 2513 में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए उसके सामने यथा विनिर्दिष्ट धागा अन्तवस्तु के लिए दरें।

NO. DRAWBACK/PN-69/72.—Under rule 3 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India—Extra-ordinary—dated the 25th August, 1971) the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971:—

After Sub-Serial No. 2420 and the entries relating thereto, the following Sub-Serial No. and the entries shall be inserted, namely:—

S-Sl. No.	Description	Rate of drawback
1	2	3
2421	Articles not elsewhere specified, made of Polythene Coated paper.	Appropriate rate specified against Sub-Serial No. 2407 to 2415 above on paper content plus appropriate rate specified against Sub-Serial No. 1941 on polythene content.
2422	Articles not elsewhere specified made of cigarette tissue paper.	Rs. 2.10 (Rupees two and ten paise only) per Kg. of cigarette tissue content in product.
2423	Articles not elsewhere specified made of combination of the articles specified at Sub-Serial Nos. 2403 to 2412 and 2421 to 2422 or of paper/paper board mentioned in these Sub-Serial Nos.	Appropriate rates specified against the relevant Sub-Serial Nos. in respect of each type of paper/paper board content.
2424	Paper or paper boards used as packing materials.	At the appropriate rate specified against Sub-Serial No. 2407 to 2415.

✓ All brand rates fixed for individual manufacturer/exporter in respect of above goods will stand withdrawn with the coming in the effect of the Public Notice.

सं० प्रतिअदायगी/पी० एन०/ 69/72 सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रति-अदायगी नियमावली, 1971, (भारत के राजपत्र असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70-प्र० अ०) के नियम 3 के अधीन, केन्द्रीय सरकार, सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी। पी० एन० 1, दिनांक 15 अक्टूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उप क्रमांक 2420 तथा तत्सम्बन्धी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित उप-क्रमांक तथा प्रविष्टियाँ अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:—

क्र० सं०	विवरण	प्रति अदायगी की दर
(1)	(2)	(3)
2421	पोलीथीन अविनिर्दिष्ट कागज से बनी अन्यत्र अविनिर्दिष्ट वस्तुएं ।	कागज अन्तर्वस्तु पर ऊपर उप क्रमांक 2407 से 2415 तक के सामने विनिर्दिष्ट समुचित दर तथा पोलीथीन अन्तर्वस्तु पर उप-क्रमांक 1914 के सामने विनिर्दिष्ट समुचित दर ।
2422	सिगरेट के पतले मुलायम कागज (टिशू पेपर) से बनी अन्यत्र अविनिर्दिष्ट वस्तुएं ।	उत्पाद में सिगरेट के पतले मुलायम कागज (टिशू पेपर) के प्रति किलोग्राम पर 2 रु० 10 पैसे (केवल दो रुपये दस पैसे)
2423	उप-क्रमांक 2403 से 2418 तथा 2421 से 2422 में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के सम्मिश्रण से अथवा इन उपक्रमांकों में उल्लिखित कागज/पेपर-बोर्ड से बनी अन्यत्र अविनिर्दिष्ट वस्तुएं ।	प्रत्येक प्रकार के कागज/ पेपर बोर्ड की अन्तर्वस्तु के सम्बन्ध में संगत उप-क्रमांक के सामने विनिर्दिष्ट उपयुक्त दर ।
2424	पैकिंग सामग्री के रूप में प्रयुक्त कागज अथवा पेपर-बोर्ड ।	उपक्रमांक 2407 से 2415 के सामने विनिर्दिष्ट समुचित दर पर ।

इस सार्वजनिक सूचना के प्रभावी होने के साथ ही उपर्युक्त वस्तुओं के सम्बन्ध में अलग अलग निर्माणकर्ता/निर्यातकर्ता के लिए निर्धारित सभी आब दरें वापस ले ली जायगी ।